



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 1973/माघ 10 1894

No. 17]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 1973/MAGHA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDERS

New Delhi, the 30th January, 1973

G.S.R. 33(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 4 of the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance, 1973 (No. 1 of 1973), the Central Government hereby specifies Shri J. G. Kumaramangalam, Chairman-cum-Managing Director, National Coal Development Corporation, 6, Lyons Range, Calcutta, as the authorised person in respect of all the mines to which the provisions of section 4 of the Ordinance apply.

G.S.R. 34(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (6) of section 4 of the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance, 1973 (No. 1 of 1973), the Central Government hereby specifies Shri J. G. Kumaramangalam, Chairman-cum-Managing Director, National Coal Development Corporation, 6, Lyons Range, Calcutta, as the person to whom the documents mentioned therein shall be delivered in respect of all the mines to which the provisions of section 4 apply.

G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2(a) of section 5 of the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance, 1973 (No. 1 of 1973), the Central Government hereby appoints Shri J. G. Kumaramangalam, Chairman-cum-Managing Director, National Coal Development Corporation, 6, Lyons Range, Calcutta, as the Custodian General for exercising supervision and control over all the coal mines, the management of which is taken over under the said Ordinance.

G.S.R. 36(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance, 1973 (No. 1 of 1973), the Central Government hereby directs that subject to the direction, supervision and control of the Central Government, Shri J. G. Kumaramangalam, Custodian General may also exercise all the powers exercisable by that Government under the said Ordinance.

[No. Secy. Spl. 1/73.]

K. T. SATARAWALA, Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1973

सा० का० नि० 33अ —कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे० जी० कुमारमंगलम, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-निदेशक, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन 6, लायन्स रोज, कलकत्ता को उन समस्त खानों के बारे में, जिन पर अध्यादेश की धारा 4 के उपबन्ध लागू होते हैं, प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

सा० का० नि० 34अ —कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) की धारा 4 की उपधारा 6 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे० जी० कुमारमंगलम, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-निदेशक, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन, 6 लायन्स रोज, कलकत्ता को उस व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको उन समस्त खानों के बारे में जिन पर धारा 4 के उपबन्ध लागू होते हैं, उसमें उल्लिखित दस्तावेज परिदत्त किए जायेंगे।

सा० का० नि० 35अ —कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) की धारा 5 की उपधारा 2(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे० जी० कुमारमंगलम, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-निदेशक, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन को समस्त कोयला खानों का, जिनके प्रबन्ध को उक्त अध्यादेश द्वारा अधिकार में किया गया है, पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करने के लिए महाअभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

सा० का० नि० 36अ —कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि केन्द्रीय सरकार के निदेशन, पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्याधीन, श्री जे० जी० कुमारमंगलम, महाअभिरक्षक, उस सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश के अधीन पर्योक्त समस्त शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेंगे।

[स० सचिव स्पेशल 1/73]

के० टी० मनारावाला,

सचिव भारत सरकार।